		(अमीरका) के जनके २, इंग्लेंग कर २१, २२) आग कर और उत्पाद सुरुकः आगर माम आगर जन्म हो जान प्राण का फिल्म मामरका अरुव के अर्थ कि . इंग्लेडिंग तोब की जम तो बाकर में १ भग _{ित्य} (१२११ (स्रिक्स) के फार्म्स की जान , २३ कर में माफ १ कड़ सकर. के फार्म्स के दिन के , २३ कर में माम १ विक्राय के 100 (स्रिक्स) के 100 हिल्ह कि कि 100 (221 - 2073) के 1111 (2 इसकर) इंग्लेस करने कर कि 120 (221	
-	रेस्टर जन्म सार्थः एवत अचित स्पादस १६७ अन्द्रस्य संविधानिक		िन कर फिल्म

an - Jusia Judal Bart Const Polagoan No.

(2), Y2, KCK. 20 ≤ 1

Phillipping Market Street

) किंस का फिलाक (15.0502018 (11के करन की सामन) 28.00,3915 Date of Conject (28.00,3915

Priorille Stri P. A. Vasave, Commissioner, CGBY & Committeeise, Katch/Goodhidham)

80.01.2017

ાયતી કે પ્રયુપ્ત કે છે. આપજી મેરેડાનું (માર્ટી પે દેવાંગ આપર મથક છે પ્રાપ્ત પદ્ધ નેદે માર્ગિયા પ્રાપ્તિ મેર્ગ અંગરમાં ત્યારી, દિવાજ પ્લાયત્વાનું આવ્યું તેમાં તે આવશે તેમાં તે આવશે. તેની પારસ્તુ આ શે માર્ગ્યું આ શે પ્રાપ્ત અન્દ્રેય આ ગુજરાત કે આ ગોમિયા, આ ગોમિયાલ વ્યવ્ય વેચાય થયું કે શાળા બેની આ ગામ ગુજરાતી કે છે. પ્રયત આ ગામ આ એ તેમાં તેમાં તેમ તેમ આ વેચાય છે. તે શાળા ગોમ આ સ્ટેમ આ સ્ટેમ એ સ્ટેસ્ટ આ સ્વિધિ આવશે આ ગામ આ આવશે છે. તેમ છે તેમાં તેમ છે છે શાળા છે. આ ગોમ સ્ટેમ ગોમ સ્ટેમ સ્ટેમ્ટ આવશે છે. સ્ટેમ્ટ

In pure and the Fourier Nobbeauer, No. 51, 2010 (2010), candid 4, 10,217 (2020), with the maximum optimal of the two very effected data in (-10,21). Some 10, 40 ensage, commission of CGST & Contral Reput. KatalaGar (2010) and (-10,20) and (

- и Аймчай & Иделя столят од 555 (Чталь 6 Абдиеат a) fre Appellants & Respondent (* 2015 – 2017 – Ziaktá Finence, Koer Doctos Люцке, Орр. Міlan Claema Хакелајскогдат - 363-002.

্যে সেইখালেটাৰ বা কাৰ্যাটি জাতে কাৰ্যন্ত লৈ নাইগাঁৱলৈ ভাগান বাঁ প্ৰথম্বল পাটিবৰাটা বাংগাঁটিবৰাম যি সময়। প্ৰথমিক মেহৰ মন্ত ভূমনো হাঁ। উল্লেখযোগ্য সমূহে কৰা by the expression-segment mean in an anglest of a upper winter authory y এই এই আইজনোই প্ৰথম

- 22) होसा कुल्ला अन्त्रोत कराज स्टब्स् पट केशन स्टाप्साई र प्रवयत्त्रिका से प्रति अभाग के ही। क्रम्पट रहक प्रतिपत्ति । अपने के का उत्तर के दियोग को दिये जाते हैं के प्रा^{क्षण}ने गये, 1954 का से से 96 के उत्तरीत निपत्तिकित जगत के से प्रावक्त है है 2008:200 कि प्रतिक्र आप के प्रावक्त के प्रावस्थ का प्रात्न के कि का को प्रातका Souther कर को 4000. किस् / Under Analog Start के प्रातक के प्रारंभ का 199 के बाद कि का को प्रातका Souther कर को 4000. किस
- টা নগীলকে মৃত্যালন টা এক লিজে গণী দেশে নিয়া শৃত্য, কেন্দ্রিক ভূমেছের সুক্রা হয় ইয়ালয় পেটেটান কেন্দ্রটোরেল্য লৈ ব্রহীয় নিয়া ইজে কর্মায় যে একে উপেটের নিয়া এই ভিলেটি বিজি বিজি সাটিয়া। The spectral control of Classical and a static for the specifical findband of Webt 2001, 50 %, 2.K. Billion Geol Cells, into a specific construction consider and selection.
- (म) इनरेवल संस्कृति ३.५८ ते बताए घट भगोन २८ व्या छा सभाव सा अधाने से वार स्वय केंद्रे व अल्पार सुरुष- एवं अधानत अधारी त्या प्राणिकरण (विकरत) कि विदेश प्राणिक विवय कि तो से सिंहत, प्राण्डित स्वय प्रार्थना भवत्र प्रार्थन अस्तराज्य व्यवस्थाय के दिन जितिये व

The flow Weak regional bounds of Constants informer to Service Case Annalises the service of SMUC services of constants in a service flow of the service of the service of the service flow of the service of the servic

•

भगोतिक स्वार्थभेष्ठवरण के मानव प्रकार बहुतर कहता से संस्थानकरोता स्वतंत भूगात प्रतित, जिसलाइस, 2441, भूमिन मध्ये संसर्भन निर्मारित किर भगो स्वतं एक दोन पर स्वतिग्रे में दल किंगा करने आहिए । भूगो से बाग से तम एक पति के साथ, 242 2436 सुद्धा कर और एकान की मोग अर्थ दिया करने आहिए । भूगो से बाग से तमर्थ करने, 5 सरत स्वतं पर 50 संसर स्वयं प्रति प्रदान की नाम अर्थ दिया के प्रतिन्दा, 3 से 3 प्रति के 19 किंगे करने, 5 सरत स्वतं प्रति 2436 सुद्धा कर और एकान की मोग अर्थ दिया भया प्रतिनिंग, 3 से 3 प्रति के प्रति करने, 5 सरत स्वतं प्रति 2436 सुद्धा करने होटे प्रदान की करने स्वतं होता है आध्यक हु से बनाम (COA- करने, 5,300 करने त्वर मा 10,000 के स्वतं के विधि देव तो स्वरक कि स्वति संतर्भ करें। विधीरित प्रति के स्वराम, स्वर्भित अर्था करने मा 10,000 के स्वर्भ के विध सिंग ताल करिष्टार के साम स्वर्थिति क्षेत्र के सम प्रति के स्वराम, स्वर्भित अर्था करने स्वायाधिक पायी ने प्रति के स्वर्भक के स्वर्भ के साम स्वर्थित की माईटोर्डन स्वर संवर्ध के रहते इंग्रांग के स्वायाधिक पायी ने प्रति के सामर्थ के साम स्वर्थ निर्मा भी माईटोर्डन स्वर्थ से क्रांग स्वर्थ रहते इंग्रांग इंग्रे हुसन प्रता ताल साम स्वर्थ के साम स्वर्थ तिस्वर स्वर्भ के की साईटोर्ड जिस की रहते साक योग के सामर्थ कि सामर्थ सिंही से अर्थ के सामर्थ के सामर्थ साम स्वर्थ के सामर्थ साम स्वर्भ के की माईटोर्डन के साम स्वर्भ की साम स्वर्भ की सामर्थ जिस की रहते साक योग के साम स्वर्थ साम प्रति के साम प्रति के प्रती कि साम साम साम साहत्य के साम साम साम साम सामर्थ

The appeal to the Assellation 7.15 and that for filed to consider the momentary for the second second labor of the file of the filed to consider the second second second for the second secon

The appear order sub-sector (1) of due for die of the Function det, 1994, to the dependent The Land Stall be filled in quarky space in 1985 of 15 we presented under to 2005 the Stress first bus sufficient shall be neared and by a support the acter oppears oppra-ing a whole shall be method enough and should be a support the acter oppears oppra-ing a whole shall be method enough and should be asset and a state of the for 0000 backet the anomal of device the sufficiency dependent of sensity lower at the photoe for 0000 backet the anomal of device the sufficiency dependent of sensity lower at the photoe for 0000 backet the anomal of device the sufficiency dependent of the state of the backet of the sensitive the sensity lower of the number of the first rest of the sensitive sensitive the dependent of the anomal of sensity and for measure of the sensitive the sensity to be the anomal of sensity and first rest of notified to the sensitive the dependent of the anomal of sensitive the sensitive the sensitive the sensitive the dependent of the anomal of sensitive the sensitive the sensitive the sensitive the sensitive to be a sensitive the sensitive the

ित्त गॉर्टनित्स, १९२१ की एक 50 मा उन्हें अपने 129 एवं 129) के प्रार्थन करने भी पर्य ग्रानेश, से का (मेठ जर्म), 1984, के किसमें 902) इन 9(25) के तेला जिसकेंग प्रभाव का तो के जा समेनी पर उसके राषे अध्यक्ष, उन्होंचे उत्तर भूलग आज प्रार्थित (1945) के सीन फ्यूट एकक स्वार्थ में के जा समेनी के उसके राषे इसका बन (मार्ट से एक परि का सिन्ह (1915) के से का क्रांस क्रांस इंग्रेंच आपके से में सीन असेनी के स्वार्थन के करने के एक से पुरुष के के परि का सिन्ह (1915) के साथ से का क्रांस इंग्रेंच के सिन्ह असेनी के साथ कि सीन्द्र के दोन के से पुरुष के के परि का सिन्ह (1915) के साथ के साथ के स्वार्थ इंग्रेंच के साथ आपके के साथ का साथ के सीन के दोन के साथ पुरुष के के साथ के सीने के साथ का प्रार्थक के साथ के साथ के सिन्ह के साथ का साथ के सीन पार्ट की आपके के सारम करने होता है के साथ के साथ के साथ के साथ का का के साथ के साथ के साथ के साथ करने के साथ कर ılı.

The poppolaringer and zero on (2) and (2) a set (2) just on SC Co. Finance Act (2) 4 what we (2) in Fig. SC 7 as preprint indicated as a set (2) with 20 of (2) Activity To. Roles, SC (1) 4 shall be accompanied by a converticity of the research dented Ender (2) and Ender thermal Sector Appendix to a set of the Activity Committee Sector Control Ender of the under 100 by the Commission of a Continue Control Activity Committee Control Ender of the under 100 (2) and a Commission of a Continue Control Activity Control Control Ender of the activity one of the Under Control (2) and (2) are control of the Control Activity Control Control

- ीम (हरू, केन्द्रीय इस्पाद शास्त एव सरस्था, 1965) र कोई करता (से.टेट) के पति अमीम के सामले में कर्न्द्रीय इस्पाद स्तृत्य (सेंटेटेंग) र (सेवन के 118) 300 के असले 117 कि कि कि पर परिशिय (1964 के 148) 30 के में, केंद्र स्तृत्य करें के ताल के 18 कि इस एसएक करति। 18 सेन पार्टिकरण में अभीम करने के पति देस समय इस्टरेकेस कर मात्र के 10 भी 811 (1976), जब 19 पट क्रुस में दियोंक्स है, या कुर्युक्ता (सन्त्र क्रियें) विवर्त्तिक कि का 10 भी 811 (1976), जब 19 पट क्रुसन कि विवर्त्ति है, या कुर्युक्ता (सन्त्र क्रियें) विवर्त्तिक कि का 10 भी 811 (1976), जब 19 पट क्रुसन कि विवर्त्ति है, या कुर्युक्ता (सन्त्र के अपने विवर्त्तिक कि का 10 भी 811 (1976) के 28 श्रेष्ट के प्राप्तेन प्रत्नेत के जोग की आदर्शन के आपने विवर्त्तिक करने हैं। illi.
 - अन्द्रों देखात भूतक तथ हवापर के 2000 में 10 के दिए जह दुस्तर में जिल्हा प्रक्रिय है. जन्म २० हे रह भूत्रीय स्वर
 - jir.
 - महरू जमा से में उन्हें महल उन्हें lih
 - ा देव द्वार में वाल से का दिवस हो के असकि है। स्वय lun

Protocological and Excite and server in Sec. for a Long (1965) 5 to interface and the information of the end of the Long (1965) 5 to interface and the information of the end of the end

<u>jH</u>

.....

।Ci 🔹 🖌 জার্জনা 📢 নামার্জনা আবচনা

A 28 TORM WEREARDER MERCHANDER INTERNATION OF A STREET OF A STR

्रति साल आधिती अन्द्र के स्टार्थ में अन्द्र स्टार्थ के तिन्द्री जन्म किया आदल्यों से स्ट्रेड् क्यां में भारतस्व के तीतने से विक्ते अन्द्र अवस्थाने वा कि भिर्माणिक तिस्थान के दे दूसर के प्रति प्रति प्रति में से देशना वा किसे शुंधार भूत्र में अधिकरण स्टार्थ के किस्क्रियाण के इसका आदले कान्स्ट्री की मिल्ही अक्तर सुष्ट में साल के सुन्द्रक - 1 आंधर सह है। जनसारि के

In Most of Any sease of goods, where the boost extension methods in the set of sectors to a reactice of one to apply a factor for the standard methods in the boot method for presence of generating of the problem is written as the reactive rated for a later set a later set as the boots.

गारत के 2013 जिला संस्थान कर की निर्धात का 25 भया थे दिकिस्टम में प्रस्तान करने स्वता का स्वते कहे. वेबद्धके प्रशीद पुरिस के कुई इंडियटा के स्वतन्त्री है सामे 25 के प्राप्त किसी संघर्ष में अब का सिंधक की की है।

In views of missing of musy of excise on its optication and to only coupling or territory curved india of or individual demonstration of the mission means of the spectral world india relation to the any optimity in form sty outpacts in the re-

- (60) All Serie (jew work, we find the first device a second visit and the Friedfind and (inter-incode of proceedings) and structure contraction to prove a Blancom valued payment of dury.
- $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ and $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ when $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ is $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ where $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ is $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$. There $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ is $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ is $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ is $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ is $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ is $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ is $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ is $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ is $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ is $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ is $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ is $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ is $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ is $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ is $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ is $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ is $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ is $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ is $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ is $\omega_{\rm eff}^{\rm eff}$ in $\omega_{\rm eff}^$ $|\mathbf{k}|$
- where a structure of a middle data that there were a now by h_{i} for the structure of the field of the method of the state of the structure of the structure of the state of the structure of $\mathbf{b}_{i}^{(i)}$

e-identing poyners of Major Dead of ers om

- (न) पर्राहरण ता उन कर गई जिल्लीनियित निर्मादिक प्रतक की उच्चताओं की उनके आहे পুৰ উপতিয়া এই সাহায় বিভাগে সময়েও নিয়া হয় বহুৰ পালে কয়েও বিভাগে কয়ে। উঠি উচ্চদ মেল মেল সেই হোৱাই উঠি হোৱাই উঠি যে ভাই হৈছে ৫০০০ বহু দ্বাবাৰে দিয়ে। মেল গেঁৰ আই মহাৰা কোনো কোনেকে মেৰ্ছ মেলৰ বিভাগে কৰাই পালে প্ৰায় মেলে হোৱাই বিভাগ নাম হ পিল লাভাগেলে বিভাগে কৰাই বিভাগে বিভাগে কোনেকে মেলে বিভাগে কোনে বিভাগে হৈছে। সম্প্ৰমন্ত্ৰ সময়ে বিভাগিত বিভাগিত বছুৰ বিভাগিত হৈছে কোনেকে বিভাগে বিভাগে হৈছে। সময়ে আৰু ইয়াই মেলে বিভাগ সিংক বিভাগিত বিভাগিত বিভাগিত বিভাগিত বিভাগিত হৈছে বিভাগিত কোনে বিভাগে বিভাগে বিভাগে বিভাগে বিভাগে বিভাগে বিভাগ সময়ে বিভাগিত বিভাগিত বিভাগিত বিভাগে বিভাগিত বিভাগিত বিভাগে সম্প্ৰকাৰ বিভাগে বিভাগি বিভাগ Ruphes Clue Little
- মগত সাঁহিল ভাৰা হ'ব বুলৰ প্ৰাইজিৰণ, 1975 টা প্ৰশ্নটা। টা চলচলা বুল মাহত চক ৰবাণে বাইনা লী। ঘটি বহু টিমীহাৰ ৪৯০ জনই আ সেপায়েৰ হ'বৰ উপিন হ'ব বুলি নায়িং হ লোক মহাৰ বাহিকা হ'ব কোঁ বাই বিধায়ে হ'ব বিধায় হয়। বুলি বাই হৈ বুলি বিধিয়া কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ বোলা বিধায় এই বিধায় বিধয়া বিধয়া হ'ব কোঁ বিধায়ে আছে বিধয়া হৈ বিধয়া হ'ব হৈ বিধয়া বিধয়া কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ বোলা বিধ এই বিধয়া হৈ বিধয়া বিধয়া কোঁ কোঁ বিধয়া হৈ বিধয়া হৈ বিধয়া বিধয়া হ'ব হৈ বিধয়া বিধ বিধ কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ ক বিধয়া বিধয়া বিধয়া আছে বিধয়া কোঁ বিধয়া হৈ বিধয়া হৈ বিধয়া বিধয়া বিধয়া বিধয়া বিধয়া বিধয়া বিধয়া বিধয়া বিধয়া কোঁ বিধয়া . 1
- টো উদ্ধায় কৰন কৰন্দ্ৰ উল্লাহ শুক্ত দুৱা মৰ্মচন্দ্ৰ সেইগেঁত লোগেটন্দ্ৰমণ কৰ্মে নিটি'ৰ উদ্ধান কৰি, 952 দী শীৰ্ণ কথা প্ৰথম কৰ্মচিকে সেমাৰ্থ কৰি প্ৰতিধান কৰ্মৰ কৰি দিনাৰ কি প্ৰতি গৈ নিমাৰ জানাপিৰ জিলা কেন্দ্ৰ হয়। আৰু প্ৰথম কৰ্মচাৰ কৰা হৈছে বিভাগত হৈছে ব্যৱহাৰ কৰা হয় হয় হয় প্ৰথমৰ ক্ৰমণিৰ জিলা কেন্দ্ৰ হয়। সেৱহেছে বা জেলাৰ কৰা উদ্ধানৰ ব্যৱহাৰ বিভাগ বিভাগ বিভাগ হোৱা প্ৰথমৰ ক্ৰমণিৰ জানা কিন্দ্ৰ কেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰ সেৱহেছে বা জেলাৰ কৰা উদ্ধান হয় বিভাগ বিভাগ বিভাগ বিভাগ বিভাগ বিভাগ বিভাগ কৰা কিন্দ্ৰ ক্ৰমণাৰ ক্ৰমণা বিভাগ বিভ
- প্ৰদানে উপনি নাৰ শিক্ষাই এই প্ৰথম ভাৱতীয়া কৰেই ভাৰত শিক্ষাইজনেই উদ্দেশ্যে গ্ৰীণ সমীকালো প্ৰথমানী জিলি। ভাই মধ্যী শিক্ষাৰীয়া বিশেষ্ট্য ভাৰত হৈছে হলে হৈ ইয়া মাজৰ হৈ হৈছে যে এই বিশেষ্ঠ হৈ বিশেষ্ঠ কৰে জিলি। বিশেষ্ঠ দল ভাৰত সময়ে, কৰিবাৰে কাৰ্ব্য নিজৰ জেলে। উল্লেখ্য কৰি বিশেষ্ঠ হৈ আৰু জেলিয়াৰ হৈ বিশেষ্ঠ বিশেষ্ঠ কৰে আ বিশ্বস্থানিক এই উদ্দেশ্য হৈছে সম্ভাৱিত প্ৰথম কৰা বিশেষ্ঠ কৰে বিশেষ্ঠ নাম কৰে জেলিয়াৰ হৈ বিশেষ্ঠ কৰে বিশেষ্ঠ কৰ

V2Y/292VR22017

CORDER IN APPEAL ::

÷

M/s Shy Shakli Finance, Neur Doctor (Iouse, Dap. Milen House, Barancianage: 060002 (horomafter ratemed to as 'like appellani') has (led the present opposit against Order-ic-Original No.19/Domand/2000-17 dated 30.01/2017 (hereinafter referred to as the impugnet order) possed by the Assiatent Commissioner, Central Excise, Division Strendranager (hereinafter referred to as the lower adjutication a dirotty') in thair own case.

2. Brieffy Stated the facts of the case are that the capellant was providing versions under the extregory of "Rent a cab" Services and "Recovery Agent Services" during the getick 2010-15 to 2013 14. However, they obtained the service tex registrement on 21.09.2015. On being asked by the Jurisdicilor at Frange Superintencent, appellant provides various documents te. Gody of Balance Sheet, profit and Loss account. Form 26AS and Double describe the Appellant is provided by them. On somethy of said documents, reveaue observed that the Appellant is providing these services caung the period 2011-10 to 2013-14 and paying service tax from October 2013 and onwards. The appellant provided basic timeshold exemption Trait of Rs. 40 Takts on 07.00.2011, accordingly service the balance of service sections.

Period F.Y.	Total value of Service	faxable vale	Assessable value (Ra.)	Rate of Service Tex	Service Tax Payeble (Rs.)
2010-11	295000	-N L- (Exempled)	NIL	NA	NA
2011-12	1937642	99) (842/- (being first value of recorption limit of 10 lakh)	o/8 o 186-	10.1373	a:: 002
2012-13	2227015	2227015	1a2r415	12.5355	2,25.968/
2013-14	1430761	1400/91	1400761	12.5855	1,73.158/-
Tolal		4525448	4004926		4,79,007/

3. In response to the inquiry initiated by the Jurise often Kange Submittendere, the Appellant initialed lost they have deposited the total service lax amount of Rs. 2,70,7674 slong with interest amount of Rs. 1,05,5584 (Total Rs. 5,76,0267) vide shallons No. 80802198050201538257 (Rs. 2,72,9457) and 85802198003201588235 (Rs. 1,04,1917) www.ls them service tax liability and Interest for the year 2011-12 and 2012-13. They also reported the psyment of Rs. 1,49,854)- for the period Out 13 to March 14in their activities tability for the year short psyment of the service tax amount of £8,2834 towards tability for the year 2011-12 to 2013-14 against the Appellant as per the opticil given under; this of to issuence of demand SON.

\$272/EVR(2017)

Period F.Y.	5. Tอ⊼ Pa∖ังอมิเอ		l 5 Lax I short part	Interest Payable I on ensady ipaid I <u>S Tax on 30 03 19</u>	
2001-02	1900104	44 0899	, 05102	21693	
-	225869	229.660	 :	00503	
: 1 (2011-12 1 to 12 12)	205638	270727	05102	132229	105599
2012 4	170160	119354	27231		
Grand Écta	478007	42(*)21	; 58.588	E02229	

The lower educesting authority were above monthered impligate, order confirmed the demand of Service Tax Rs. 5,28,713/-1. Since appellant sheady paid the accuracies of Rs. 2,40,407--, incorrow onlered to recover the remaining amount of Rs. 55,646/1. Fe also confirmed interest as appropriate rate. Since appellant sheady paid interest at Rs. 1,05,668/-, therefore oncored to appropriate the same against the rate. Siterest payable. The lower adjudicating authority slate confirmed penalty of Rs. 10,000/uncertisection 77 of the Finance Act, 1994, consulty of Rs. 0,26,712/, under Section 78 of the Finance Act 1994 and Rs. 1,00,000/- updet societ 70 of the Finance Act 1984 for not alling ST 3 reterts.

5. Solisequently, in pursuance of Board's Notification No.26/2017-C Ex (NT) dated 17.10.2017 mod with Board's Order No.05/2017-ST rusted 16 (1,2017 the instant speed has been blead on Fand for cassing Order-in-Acpeal.

6 I find that in case of traism appeal, the impogned cross was received by the appealant on 10.02.2017 and data of (ling of appeal is 26.03.2017. Hence, the appeal has seen fied within the stipulated time period and there is no delay in https://appeal.The.condition-of pre-depositiels also also during the


7. Being aggrieved with the impugate order, the appollant has preferred that present space! contending intersite that their adulty is Eable for service lax and dray. paid service tax along with otorest on 30.00.2015 and informed the jurist chorat range. Superintendent of sorvice fax on 03-04-2015. The BCN to the present case usis been issued on 19.09.23°8 tellefters of created half years from the date of poyment of service tax. Under the above directistances, the provision of sub section (1) of section. (2) of the finance Act. 1994 will be epollogoid and no any SCN required to be served in: respect of emotint so paid. Regarding pervice tax on 'Rent a Cab' service, as pernotification No. 50/2012-ST dated 20.08.2012 which was effective from 01.07 2012, red so vite law is to be paid by other then the service provider. The appoint vide fatter dated 08.08 2018 submitted that they have to pay the service tax which is nationated to R8. 32827.04 on the Taxable Value of Rs. 72,000/ (40% of Rs. 1.00.000+ i.e. amount received by Illem) in respect of 'Rent's-Cap' service provided by them upaa 50.08/2012. They endosed Amexure Wildong with their scamssion wherein they

provided detail of each pervice provided to Ishwar Singh Rathers. Further vice their later dates 0r 03 2018 they submitted Revised calculation sheet, wherein they planned that only Rs. 83354 has been short paid by them. They also provided copy of challen no. 52553 and planned that short payment of Rs. 232834 for the F.Y. 2016 14 has a ready been paid by them on 16.13.2016.

9. The adjusticating authority has Imposed penalty of Fest,00,000/ upon the specifical under Section 70 of the Finance Act. (9.14 for not filling 05 (ftva) 311-3 Field me. I find that the panalty imposed it nder Section 70 of the Finance Act. 1984 is exortatant and Leyone the maximum limit of Rs. 20,0004 preset bed under the statute and the same is required to be reduced in accordance with law.

10. Find in the instant case, there is tactual protects and the same is required to be received. Hence, ill remand back the case while ariginal adjudicating outfority for trish adjudication. The appellant is directed to produce at the payment on thoulars and calculation shocts before the adjudicating authority within 15 days from except of this produce.

The appeal is disposed or in the above terms.



(P. A, Veseve) Commissioner (vapeals) / Commissioner CGGT &Central Excise, Ketch (Ganchidhert)

Date: 15.06.2018

<u>By R</u>.P.<u>A</u>.D.

F. No. V 2972/BVR02017

.

Ta, MALShiv Shakli Finance, Near dottor House, Opp. Milah House, Surendranogar 382052.

<u>Çopy to:</u>

- The Principal Chief Commissioner, CGST & Certra, Exaso, Ahmedubad.
- 2 The Dy.(Assl. Commissioner, Contral Excise, Rural Hysion, Bhavnagau,
- 3 The Dy. (Ass., Commissioner (Sys.), F.Q., Bhevnager for upbeding on
- wzbste.
- ു**∯⁄** Guadifie.

Q: F of 6
